



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

18 पौष 1935 (श०)  
(सं० पटना 44) पटना, बुधवार, 8 जनवरी 2014

---

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

27 अगस्त 2012

सं० 5/सह.फ.बी.-41/2012-3752—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 13011/02/2008-क्रेडिट-II (Pt.) दिनांक 07.03.2012 से प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति तथा उनके पत्रांक 13011/05/2010-क्रेडिट-II दिनांक 09.07.2012 एवं 13014/02/2012-क्रेडिट-II दिनांक 08.08.12 के आलोक में मोडिफायड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) के तहत खरीफ-2012 मौसम की धान एवं मकई फसल को बीमा हेतु चयनित करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 3131 दिनांक 19.07.12 एवं 3570 दिनांक 13.08.12 द्वारा राज्य के 7 (सात) जिलों को बीमा हेतु आच्छादित किया गया है।

2. उक्त अधिसूचना संख्या 3131 दिनांक 19.07.12 द्वारा अधिसूचित 7 (सात) जिलों यथा—पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, मधुबनी, शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों में से पूर्वी चम्पारण एच.डी.एफ.सी. इरगो, जी.आई.सी. को तथा सीतामढ़ी जिला आई.सी.आई.सी.आई. लॉम्बार्ड, जी.आई.सी. को आवंटित था। बीमा हेतु चयनित धान एवं मकई फसल हेतु निर्धारित प्रीमियम की दर पर उक्त दोनों बीमा कंपनियों ने क्रमशः पूर्वी चम्पारण एवं सीतामढ़ी जिला में कार्य करने में असमर्थता प्रकट की, जिसे ध्यान में रखते हुए खरीफ 2012 मौसम में उक्त दोनों जिलों में धान एवं मकई फसल के बीमा हेतु एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि., पटना को अधिकृत किया जाता है।

3. योजना के तहत बीमा के लिए निर्धारित प्रीमियम की दर में एक-दो जगह टंकण त्रुटियाँ पाई गई, जिसे संशोधित किया जाता है।

4. निर्गत विभागीय अधिसूचना में धान फसल के बीमा हेतु चयनित 7 (सात) जिलों की सभी अधिसूचित ग्राम पंचायतों को इकाई के रूप में अधिसूचित किया गया है, किन्तु नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत आदि के तहत पड़ने वाले कृषकों के बीमा का उल्लेख नहीं हो सका था, जिसे बीमा की इकाई के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

5. योजना के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या 3131 दिनांक 19.07.2012 एवं अधिसूचना संख्या 3570 दिनांक 13.08.12 की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

मधुरानी ठाकुर,

सरकार के उप-सचिव।

### Annexure - I

#### Modified National Agriculture Insurance Scheme (MNAIS) Kharif-2012, SUM INSURED LIMITS INDEMINITY LEVELS (IL) ETC.

	Sl. No.	District	Crop	Sum Insured/HA (Loanee Farmer) Rs.	Full Premium Rate
	1	2	3	4	5
HDFC	1	East champaran	Paddy	20,000	25.00%
			Maize	20,000	12.50%
	2	Darbhanga	Paddy	20,000	20.00%
			Maize	20,000	12.50%
AIC	3	Muzaffarpur	Paddy	20,000	19.40%
			Maize	20,000	12.50%
	4	Khagaria	Paddy	20,000	20.00%
			Maize	20,000	14.60%
	5	Madhubani	Paddy	20,000	25.00%
			Maize	20,000	10.00%
ICICI	6	Seohar	Paddy	20,000	19.40%
			Maize	20,000	6.50%
	7	Sitamarhi	Paddy	20,000	25.00%
			Maize	20,000	6.50%

Premium Rate Applicable for farmers	Premium Subsidy Payable By State Govt.	Premium Subsidy Payable By Central Govt.	Indemnity Level	Value of threshold (Rs./Ha)	Value of 150% of average yield (Rs./Ha)
6	7	8	9	10	11
6.25%	9.375%	9.375%	70%	11558	24767
5.00%	3.75%	3.75%	70%	9699	20784
6.00%	7.00%	7.00%	70%	13503	28938
5.00%	3.75%	3.75%	70%	7097	15208
6.00%	6.70%	6.70%	70%	6670	14292
5.00%	3.75%	3.75%	70%	11706	25084
6.00%	7.00%	7.00%	70%	6238	13367
5.84%	4.38%	4.38%	70%	9740	20871
6.25%	9.375%	9.375%	70%	10213	21885
5.00%	2.50%	2.50%	70%	9865	21139
6.00%	6.70%	6.70%	70%	8690	18621
3.25%	1.625%	1.625%	70%	11800	25286
6.25%	9.375%	9.375%	70%	17205	36868
3.25%	1.625%	1.625%	70%	14645	31382

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
 बिहार गजट (असाधारण) 44-571+20-डी0टी0पी0।  
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>